



महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001



P19/II/DRSSA-014/BH/2019-20

01/07/2019

To

All District/ Sub Treasury Officers/Bnaks.

Sir,

- Sub: 1. Grant of Dearness Relief/Allowance at the rate of 148% w.e.f. 01/07/2018 to Bihar State Government Servants/Pensioners/Family Pensioners receiving pay/pension in unrevised pay scales as per the Sixth Central Pay Commission - reg .
2. Admissibility of family pension to dependent unmarried/abandoned/widowed daughters after the age limit of 25 years in conformity with Central Government - reg.

- Ref: 1. Lr. No. SSA-Pen-09-127 dated: 18/03/2019 under SSA received from the office of the Accountant General (A&E), Bihar, Patna.
2. Government Resolution No. 3 A-2-PR-(Allowance)-08/2013....1530/Fin. dated: 11/02/2019 from Finance Department, Government of Bihar.
3. Government Resolution No. Fin. 27-P.T. 69/2018-918 dated: 25/10/2018 from Finance Department, Government of Bihar.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the office of the Accountant General (A&E), Bihar, Patna regarding grant of Dearness Relief/Allowance at the rate of 148% w.e.f. 01/07/2018 to State Government Servants/Pensioners/Family Pensioners receiving pay/pension in unrevised pay scales as per the Sixth Central Pay Commission and regarding the admissibility of family pension to dependent unmarried/abandoned/widowed daughters of retired/deceased employees of Central Government even after the age limit of 25 years subject to the condition in conformity with Central Government . The same is being placed in the official website of the office (www.agker.cag.gov.in) under the link "**Treasury endorsement of orders for other state pensioners**". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

Accounts Officer

Copy to:-

The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Accounts Officer

pm/2/mo/23 11/4

Pia/II/DRSSA/14

26/04/19

Telephone-2223251
2225700-2224812

4-19



Fax: 0612-2225977

Grant: ACCOUNTS

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No. SSA-Pen-09- 127

Date 18 /03/2019

14330
9/4/19.

To,

The

1	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500004
2	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
4	Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi	834002
5	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Director of Accounts, pension Section, Panji, Goa	403101
6	Accountant General (A&E), Chhatisgrah, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafidih, Raipur	492009
7	Accountant General (A&E), Gujarat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8	Accountant General (A&E), Harayana, Lekhabhawan, Plot No. 4&5, Sector-33-B, chandigrah	160047
9	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himanchal Pradesh, Gorton Castle Building, Shmila	171003
10	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11	Pr. Accountant General (A&E), Karnatka, residency Parm Road, Post Box No.5, Bangalore	560001
12	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14	Pr. Accountant General (A&E), Maharashtra, 2 nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karv, Mubai	400020
15	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17	Accountant General (A&E), Meghlalya, Shilong	793001
18	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Buildignh, Dinthar, Aizawl	796001
19	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Nagaland Kohima	797001
20	Accountant General (A&E), Orissa, Bhuneshwar	751001
21	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigrah, Sector- 17E, Chandigarh	160017
22	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhawagan Das Road, Jaipur	302005

Telephone-2223251
2225766, 2224812

Fax - 0612-2225977
Gram : ACCOUNTS

23	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deoria, PO- Tadong, Gangtok	737102
24	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjanban, Agartala	799006
26	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojni Naidu, Marg, Allahabad	211001
27	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majram, Dehradun	248171
28	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, No.- 2, Govt. Place (West), Kolkata	700001
29	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	605001
30	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3 rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31	Pay & Accounts Officer(V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi	110124
32	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject: Grant of Dearness Relief/ Medical Allowance/ Revision of pension/ amendment of pension rules of state government pensioner.

Reference: Government resolution No. 3P-2-द.पु.अ. - 88/2013-1530/वि० पटना, दिनांक 11-02
(Grant of Dearness Relief @ 148% w.e.f. 01.07.2013)
2. Government resolution No. वि०-2A(से० का० - 69/2013 - 918 पटना, दिनांक 25.10.13

Sir,

I am to forward herewith Hindi/ English version of copy of Govt. of Bihar resolution mentioned above for your needful action. You are requested to circulate this order to all concern pensions disbursing authority under your jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same.

Enclosure: Resolution of Government of Bihar.

Yours faithfully


Sr. Accounts Officer
Bihar, Patna.

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-11/02/2019

विषय:- षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से 142 प्रतिशत के स्थान पर 148 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-3251/वि० दिनांक-04/05/2018 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01/01/2018 के प्रभाव से 142 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०- 1(3)/2008-E-II(B) दिनांक-11/09/2018 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/भत्ते आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 142 प्रतिशत से बढ़ाकर 148 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि:-

- (i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2018 के प्रभाव से 142 प्रतिशत के स्थान पर 148 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- (ii) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा।
- (iii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा।
- (iv) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णकृत कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

5. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशन भोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्डक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वाले को भी यह राहत देय होगी।

6. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

7. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

3/3/2
ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 1530/वि०

पटना, दिनांक:-11/02/2019

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषय :- केन्द्र सरकार के अनुरूप अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में ।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक 1/19/03-P&PW(E) दिनांक-30.08.2004 एवं 06.09.2007 तथा 1/13/09-P&PW(E), दिनांक-11.09.2013 के द्वारा केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात् भी विवाह/पुनर्विवाह/विहित न्यूनतम आय की शर्तों के अधीन बिना किसी उम्र सीमा के पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य की गयी है।

2. राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के आश्रित पुत्र/पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु अथवा विवाह/पुनर्विवाह जो भी पहले हो, तक पारिवारिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। केन्द्र सरकार के अनुरूप अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को विहित शर्तों के अधीन बिना किसी उम्र सीमा के पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य करने हेतु अनेकानेक अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त होने के कारण यह विषय सरकार के विचाराधीन था।

3. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों जो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल थे, के आश्रित अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा पुत्रियों को निम्न शर्तों के अधीन पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य की जाती है:-

(क) अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की सुविधा 25 वर्ष की आयु के पश्चात भी उनके विवाह/पुनर्विवाह अथवा मासिक आधार पर विहित न्यूनतम आय की प्राप्ति आरंभ करने तक अनुमान्य होगी। परिवार पेंशन हेतु अर्हकता/अनर्हकता के संदर्भ में विहित न्यूनतम आय का तात्पर्य तत्समय लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं महंगाई भत्ता के जोड़ से प्राप्त राशि से है। विवाह/पुनर्विवाह/न्यूनतम मासिक आय की उपलब्धता की स्थिति में पारिवारिक पेंशन की अर्हकता समाप्त हो जायेगी।

(ख) परित्यक्ता पुत्रियों को उनके पति से प्राप्त गुजारा/जीवन निर्वाह की राशि की गणना उनकी आय के रूप में की जायेगी। अर्थात् जीवन निर्वाह की राशि उपर्युक्त विहित न्यूनतम आय से अधिक होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन अनुमान्य नहीं होगा।

(ग) अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की सुविधा तभी देय होगी, जब 25 वर्ष तक की आयु के सभी संतान पारिवारिक पेंशन हेतु अयोग्य हो जाएँ तथा कोई दिव्यांग संतान न हो ।

(घ) अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को भी आयु क्रम में ही पारिवारिक पेंशन देय होगा तथा छोटी पुत्री तभी योग्य होगी जब बड़ी पुत्री इस हेतु अयोग्य हो जाए।

(ङ) पेंशन वितरण प्राधिकार छ:माही आधार पर आय/विवाह के संबंध में क्रमशः आय प्रमाण पत्र (प्रखंड स्तर से निर्गत) तथा प्रथम श्रेणी कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष दायर शपथ पत्र पेंशनर से प्राप्त कर ही पेंशन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

(च) एतद् सम्बन्धी पूर्व में निर्गत राज्यादेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

(छ) यह संकल्प आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक- वि0-27पे0को0-69/2018 - 318

पटना, दिनांक- 2.5.10.2018

प्रतिलिपि:-सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/
सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी पेंशन प्रदायी बैंक को
सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)
2.5.10.18

26/10/18

GOVERNMENT OF BIHAR

DEPARTMENT OF FINANCE

RESOLUTION

Patna, Dated 11.02.2019 ✓

Sub :- Sanction of 148% dearness allowance/relief in the place of 142% w.e.f. 01.07.2018 to State Government Servants/Pensioners/Family Pensioners receiving pay/pension in unrevised pay scales as per the Sixth Central Pay Commission

Vide Department of Finance, Resolution No. 3251 dated 04.05.2018, sanction had been accorded for the payment of 142% dearness allowance/relief w.e.f 01.01.2018 to State Government servants/pensioners/family pensioners receiving pay/pension in the un-revised pay scale as per the Sixth Central Pay Commission, in conformity with the Central Government.

2. Vide Government of India, Finance Department OM No. 1(3)/2008-E-II(B) dated 11/09/2018, sanction has been accorded to enhance the rate of dearness allowance to Central Government employees drawing pay/allowance in the Sixth Central Pay Scale, from 142% to 148% w.e.f. 01/07/2018.

3. The State Government also accord sanction of dearness allowance/relief to their employees/pensioners/family pensioners at the same rates and from the same date in conformity with the Central Government.

4. In light of the above, the following decisions have been taken after due consideration –

- (i) Sanction is accorded for 148% dearness allowance in the place of 142% w.e.f 01.07.2018 to State Government employees/pensioners/family pensioners receiving pay/pension in un-revised pay scale as per the Sixth Central Pay Commission
- (ii) Dearness allowance will be calculated on the basis of the sum of pay band and grade pay received in the unrevised pay scale and special pay or personal pay shall not be included therein.
- (iii) In respect of pensioners/family pensioners, payment of dearness relief shall be calculated on the basis of basic pension.
- (iv) In the calculation of dearness allowance/relief, 50 paise or more shall be rounded off to next higher rupee and the amount less than 50 paise shall be ignored.
- (v) Payment of the amount of above dearness allowance/ relief shall be made in cash.

5. Payment of dearness allowance on pension is admissible to those pensioners also, including re-employed pensioners, who are receiving compensatory pension, old age pension, retirement and disability pension. The relief shall also be payable to those receiving provisional/family pension and extra ordinary pension.

6. Treasury Officer shall immediately make provisional payment without waiting for authority letter from the Accountant General/Finance (Personal Claim Fixation Cell) Department.

7. In order to avoid delay in the payment of dearness relief to pensioners, orders are issued under Rule 206 of Bihar Treasury Code, 2011 for payment of relief without the authority of the Accountant General, Bihar in the case of pensioners receiving pension within the state. The Treasury/Sub Treasury Officers are also directed to circulate the copies of this order to all authorised Public Sector Banks for making immediate payment to the pensioners receiving payment through banks. Release of dearness relief outside Bihar State shall be made only on the authority letter of the Accountant General, Bihar. The Accountant General, Bihar is requested that the Accountants General concerned with the pensioners receiving pension outside Bihar State shall be authorized urgently for the payment of relief on pension under intimation to the Department of Finance.

8. Payment of above dearness allowance/relief on un-revised pay scale to the employees/pensioners/family pensioners of High Court/Bihar Legislative Assembly/Bihar Legislative Council shall be made with the sanction of the Chief Justice, High Court, Patna/ Chairman, Bihar Legislative Assembly/Speaker, Bihar Legislative Council.

ORDER - It is ordered that this Resolution be published in the next edition of the Gazette of Bihar for the information of general public.

Sd/-
(Rahul Singh)
Secretary (Expenditure), Dept. of Finance

Endt No. 3A-2-PR-(Allowance)-08/2013-1530-Fin.

Patna, Dated:-30.10.2017

Copy to:-The Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, Patna, for information and necessary action.

Sd/-
(Rahul Singh)
Secretary (Expenditure), Dept. of Finance

GOVERNMENT OF BIHAR

DEPARTMENT OF FINANCE

RESOLUTION

Sub :- Admissibility of family pension to dependent unmarried/abandoned/widowed daughters after the age limit of 25 years in conformity with Central Government - reg.

Vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension, Government of India, OM No. 1/19/03-P&PW(E) dated 30.08.2004 and 06.09.2007 and 1/13/09-P&PW(E), dated 11.09.2013, the benefit of family pension has been permitted to the dependent unmarried/abandoned/widowed daughters of retired/deceased employees of Central Government even after the age limit of 25 years subject to the conditions of marriage/re-marriage/prescribed minimum income, without any age limit.

2. Benefit of family pension is available to the dependent sons/daughters of retired/deceased State Government employees, upto the age of 25 years or till marriage/re-marriage, whichever is earlier. The subject was under consideration of the Government as a number of representations have been received for allowing the benefit of family pension to the dependent unmarried/abandoned/widowed daughters without any age limit under the prescribed conditions, in conformity with the Central Government.

3. After due consideration, the benefit of family pension is permitted to the dependent unmarried/abandoned/widowed daughters of those retired/deceased employees of the State Government who were covered under the old pension scheme, subject to the following conditions :-

(a) Benefit of family pension shall be admissible to dependent unmarried/abandoned/widowed daughters even after the age of 25 years till their marriage/re-marriage or commencement of earning the prescribed minimum monthly income. Minimum income prescribed with reference to eligibility/non eligibility for family pension means the amount received as the sum of minimum pension and dearness allowance applicable at that time. The eligibility for family pension shall cease in case of marriage/re-marriage/availability of minimum monthly income.

(b) The livelihood/subsistence amount received by the abandoned daughters from their husbands shall be calculated as their income, which means that if the subsistence amount is more than the minimum income prescribed above, family pension shall not be admissible.

(c) Benefit of family pension shall be admissible to dependent unmarried/abandoned/widowed daughters, only when all the wards upto the age of 25 years become ineligible for family pension and there is no handicapped ward.

(d) Family pension shall be payable to dependent unmarried/abandoned/widowed daughters, only in the order of age and the younger daughter will be eligible, only when the elder daughter becomes ineligible for it.

(e) The Pension Disbursing Officer shall ensure payment of pension only after receiving Income Certificate (issued at block level) and Affidavit filed before First Class Executive Magistrate regarding income/marriage respectively, from the pensioner on half yearly basis.

(f) The Government Order issued earlier in this regard shall deemed to be revised to this extent.

(g) This Resolution shall come into effect from the date of issue of order.

ORDER - Ordered that this Resolution be published in the next extra ordinary edition of the Gazette of Bihar for the information of general public.

By orders of the Governor of Bihar

Sd/-

(Rahul Singh)

Secretary (Expenditure)

Endt No. Fin.27-P.T.69/2018-918

Patna, Dated : 02.05.....

Copy to :- All Departments of Government/Heads of Departments/Accountant General, Bihar/All District Officers/All Treasury Officers/All Pension Paying Banks, for information and necessary action.

Sd/-

(Rahul Singh)

Secretary (Expenditure)

131
41-19
P-19